



Carbohydrates Raise Blood Sugar Levels and Increase the Risk of Developing Pancreatic Cancer

Johrj Jefresz*

***Corresponding author:** Johrj Jefresz, Department of Endocrinology, University of Brazil, Brazil, E-mail: johrjrfresz921@gmail.com

Received: 10-Apr-2023, Manuscript No: jcds-23-100041, **Editor assigned:** 12-Apr-2023, PreQC No: jcds-23-100041 (PQ), **Reviewed:** 26-Apr-2023, QC No: jcds-23-100041, **Revised:** 01-May-2023, Manuscript No: jcds-23-100041 (R), **Published:** 08-May-2023, DOI: 10.4172/jcds.1000170

Citation: Jefresz J (2023) Carbohydrates Raise Blood Sugar Levels and Increase the Risk of Developing Pancreatic Cancer. J Clin Diabetes 7: 170.

Copyright: © 2023 Jefresz J. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use and distribution in any medium, provided the original author and source are credited.

Ac d

C f l c I

References

1. Mullan F (1984) Community-oriented primary care: epidemiology's role in the future of primary care. *Public Health Rep* 99: 442–445.
2. Mullan F, Nutting PA (1986) Primary care epidemiology: new uses of old tools. *Fam Med* 18: 221–225.
3. Abramson JH (1984) Application of epidemiology in community oriented primary care. *Public Health Rep* 99: 437–441.
4. Pickles WN (1939) *Epidemiology in Country Practice*. Bristol: John Wright and Sons.
5. Fry J (1979) *Common Diseases*. Lancaster: MT Press.
6. Hodgkin K (1985) *Towards Earlier Diagnosis. A Guide to Primary Care*. Churchill Livingstone.
7. Komarof AL (1990) 'Minor' illness symptoms: the magnitude of their burden and of our ignorance. *Arch Intern Med* 150: 1586–1587.
8. Last RJ (2001) *A Dictionary of Epidemiology*. Oxford: International Epidemiological Association.
9. Kroenke K (2001) Studying symptoms: sampling and measurement issues. *Ann Intern Med* 134: 844–853.
10. Sackett DL, Haynes BR, Tugwell P, Guyatt GH (1991) *Clinical Epidemiology: a Basic Science for Clinical Medicine*. London: Lippincott, Williams and Wilkins.
11. Hart JT (1974) The marriage of primary care and epidemiology: the Milroy lecture, 1974. *J R Coll Physicians Lond* 8: 299–314.
12. Kroenke K (1997) Symptoms and science: the frontiers of primary care research. *J Gen Intern Med* 12: 509–510.